



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1768]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2008/अग्रहायण 26, 1930

No. 1768]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2008/AGRAHAYANA 26, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2921(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मुंबई कमोडिटी एक्सचेंज लि. मुंबई द्वारा मान्यता के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग, मुंबई के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को काटनसीड ऑयल, काटनसीड केक, राइस ब्रॉन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आर बी डी पॉमोलीन और सोयाबीन में अग्रिम संविदा के संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करते हैं।

2. एतद्वारा, मान्यता इस शर्त के अध्याधीन दी जाती है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[फा. सं. 12/7/2001-आई टी]

केवल राम, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2008

S.O. 2921(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, Mumbai the application for grant of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Bombay Commodity Exchange Ltd., Mumbai and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a period of three years from the date of publication of this Notification in respect of forward contracts in Cottonseed Oil, Cottonseed Cake, Rice bran Oil, Groundnut Oil, Sunflower Oil, RBD Palmolein and Soyabean.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F.No. 12/7/2001-IT]

KEWAL RAM, Senior Economic Adviser